

विशेष रिपोर्ट

# मसाले

सितम्बर 2022



# हल्दी


## महत्वपूर्ण कारक

- देश में हल्दी की बुआई और फसल की मौजूदा स्थिति
- हल्दी उत्पादक राज्यों में मौसम की स्थिति
- मध्य-पूर्व और बांग्लादेश से निर्यात मांग
- एनसीडीईएक्स गोदामों में एवं किसानों और व्यापारियों के पास स्टॉक की स्थिति
- तेलंगाना और महाराष्ट्र में हल्दी की आवक


## फंडामेंटल:

अगस्त 22 में हल्दी की कीमतों में लगातार सातवें महीने गिरावट जारी रही क्योंकि कीमतों में 7% से अधिक की मासिक गिरावट देखी गई और माह के अंत में कीमतें 7156 पर बंद हुईं। मुख्य रूप से भौतिक बाजार में पर्याप्त स्टॉक के बीच स्थानीय व्यापारियों की सुस्त खरीदारी के कारण जनवरी के बाद से कीमतों में 36% की गिरावट हुई है। जनवरी 22-अगस्त 22 के दौरान पूरे भारत में कुल आवक वर्ष-दर-वर्ष 17% अधिक रही है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 1.65 लाख टन की तुलना में 1.93 लाख टन थी। भारत भर के प्रमुख उत्पादक राज्यों में बुवाई गतिविधियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आंध्र प्रदेश में 1 सितंबर, 22 तक लगभग 14 हजार हेक्टेयर में हल्दी की बुवाई की गई है, जबकि पिछले वर्ष समान अवधि में 13 हजार हेक्टेयर में बुवाई की गई थी। आगे चलकर मुख्य फोकस हल्दी की निर्यात मांग पर होगा। भारत ने पिछले वर्ष के 40 हजार टन की तुलना में अप्रैल '22-जून' 22 के दौरान लगभग 49 हजार टन हल्दी का निर्यात किया है, जो वर्ष-दर-वर्ष 23% अधिक है। भारत ने पिछले साल के 13 हजार टन की तुलना में जून, 22 में लगभग 19 हजार टन हल्दी का निर्यात किया।

## हल्दी की कीमतें (रू/क्विं. में)



## भारत से हल्दी का निर्यात (1000 मी.टन में)



स्रोत: रॉयटर्स एवं डीजीएफटी

## आउटलुक

फरवरी-22 के बाद से कीमतों में लगातार गिरावट देखने के बाद, हल्दी की कीमतों में बढ़त दर्ज किए जाने की उम्मीद है, अब इसे 6700 के स्तर पर सपोर्ट मिल सकता है। कमजोर आवक और निर्यात मांग में अपेक्षित वृद्धि से आने वाले महीनों में कीमतें धीरे-धीरे बढ़कर 7700 के स्तर पर पहुंच सकती हैं।

# जीरा


## महत्वपूर्ण कारक

- प्रमुख मंडियों में आवक की मात्रा
- एनसीडीईएक्स गोदामों में एवं किसानों और व्यापारियों के पास स्टॉक
- भारतीय जीरे की घरेलू और निर्यात मांग
- अन्य जीरा उत्पादक देशों में उत्पादन की संभावनाएं

## फंडामेंटल:

अगस्त-22 में एनसीडीईएक्स प्लेटफॉर्म पर जीरा की कीमतें 5% की मासिक बढ़त के साथ रिकॉर्ड स्तर 25860 पर पहुंच गईं, और माह के अंत में 25110 पर बंद हुईं। उत्सवों को लेकर खरीदारी और आपूर्ति की कमी की मौजूदा चिंताओं के कारण जीरा की कीमतों को मदद मिली। स्टॉकिस्टों ने कीमतों में अधिक वृद्धि की उम्मीद में स्वयं को भारी बिकवाली से दूर रखा। अगस्त-22 में पूरे भारत की प्रमुख मंडियों में लगभग 15 हजार टन जीरा की आवक दर्ज की गई, जबकि पिछले वर्ष इसी महीने में 19 हजार टन की आवक हुई थी। कम उत्पादन के कारण जनवरी 22-अगस्त 22 के दौरान कुल आवक में साल-दर-साल 31% की गिरावट हुई है। आगामी निर्यात मांग के संकेतों से कीमतों को मदद मिलने की संभावना है, जिसे सख्त वैश्विक आपूर्ति के मद्देनजर बढ़ने की उम्मीद है। वर्ष 2022 में जून तक भारत से जीरा निर्यात साल-दर-साल 9% कम हो गया है, जो पिछले वर्ष के 6.4 हजार टन की तुलना में 5.9 हजार टन हुआ है। कम उत्पादन के कारण वर्ष 2022 में निर्यात की गति धीमी रही है। सीरिया और तुर्की में कम उत्पादन से भारत के जीरा निर्यात में वृद्धि होगी। लेकिन उच्च स्तर पर कुछ मुनाफावसूली देखी जा सकती है जो आने वाले हफ्तों में कीमतों में नरमी के रूप में दिखाई देगी। स्टॉक की कम उपलब्धता से कीमतों में गिरावट सीमित होने की संभावना है क्योंकि मसाला मिलों और अन्य व्यापारियों को अपनी व्यापार प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए कीमतों पर गिरावट पर खरीददारी करने मजबूर करेगी। वर्ष 2021-22 में जीरा का उत्पादन साल-दर-साल 9% घटकर 7.25 लाख टन रहने का अनुमान है, जिसने पूरे भारत में स्टॉक कम रह सकता है।

## जीरा की कीमतें ( ₹/क्विं. में )



स्रोत: रॉयटर्स एवं डीजीएफटी

## भारत से जीरा का निर्यात ( 1000 मी.टन में )



## आउटलुक

मुनाफावसूली के कारण एनसीडीईएक्स पर जीरा ( अक्टूबर ) की कीमतों में निकट अवधि में 24000 तक कुछ गिरावट देखी जा सकती है जबकि 26500 पर रेजिस्टेंस रह सकता है।


## महत्वपूर्ण कारक

- भारत क्षरा जनवरी-22 से जून-22 के दौरान लगभग 15 हजार टन धनिया का आयात
- एनसीडीईएक्स गोदामों में एवं किसानों और व्यापारियों के पास स्टॉक
- मसाला उद्योगों और स्टॉकिस्टों की ओर से मांग
- घरेलू मांग और मौजूदा कीमतों पर निर्यात मांग
- रूस और इटली जैसे देशों में से अधिक आयात
- अन्य देशों में उत्पादन

## फंडामेंटल:


अगस्त-22 में धनिया वायदा की कीमतें नरमी के रुझान के साथ सीमित दायरे में स्थिर रहने की कोशिश की। रूस और इटली से आयात बढ़ने और स्थानीय बाजार में सुस्त खरीददारी से बाजार का सेंटीमेंट प्रभावित हुआ। घरेलू मांग कमजोर रही क्योंकि अगस्त 22 में कीमतें 11964 के करीब थीं जो पिछले वर्ष के 8128 की तुलना में बहुत अधिक है। उच्च कीमतों के बीच कम घरेलू आपूर्ति के कारण आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। भारत ने पिछले वर्ष के 3.6 हजार टन की तुलना में जनवरी 22-जून 22 के दौरान लगभग 15 हजार टन धनिया का आयात किया। लेकिन कम उत्पादन के कारण घरेलू आपूर्ति कम रही और यहां से कीमतों में बड़ी गिरावट पर रोक लग सकती है। मसाला निर्माता इंतजार करने की स्थिति में हैं और कीमतों में अधिक गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि कीमतें अभी भी सामान्य की तुलना में बहुत अधिक चल रही हैं। लेकिन गिरावट सीमित रह सकती है क्योंकि 10700 के स्तर के पास नयी खरीदारी देखी जा सकती है। व्यापारियों और मसाला निर्माताओं के पास बढ़ी हुई कीमतों पर धनिया खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं है क्योंकि उन्हें नई फसल प्राप्त करने के लिए 4-5 महीने और इंतजार करना होगा।

## धनिया की कीमतें (रु/क्वि. में)



स्रोत: रॉयटर्स एवं डीजीएफटी

## भारत से धनिया का व्यापार (1000 मी.टन में)



## आउटलुक

कम उत्पादन के कारण वर्ष 2022 में धनिया की कीमतें 13298 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं। आगे चलकर कीमतों में तेजी के रुझान के साथ 10700-12500 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

वंदना भारती	एवीपी कर्मोडिटी रिसर्च	फोन न. 011-30111000	एक्सटें. 625	<a href="mailto:vandanabharti@smcindiaonline.com">vandanabharti@smcindiaonline.com</a>
रवि पाण्डेय	सीनियर रिसर्च एसोसिएट	फोन न. 011-30111000	एक्सटें. 674	<a href="mailto:ravi16@smcindiaonline.com">ravi16@smcindiaonline.com</a>
शिवानन्द उपाध्याय	रिसर्च एसोसिएट	फोन न. 011-30111000	एक्सटें. 646	<a href="mailto:shivanand@smcindiaonline.com">shivanand@smcindiaonline.com</a>

आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- [www.smctradeonline.com](http://www.smctradeonline.com)



**Corporate Office:**

11/6B, Shanti Chamber,  
Pusa Road, New Delhi - 110005  
Tel: +91-11-30111000  
[www.smcindiaonline.com](http://www.smcindiaonline.com)

**Mumbai Office:**

Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402 , 4th Floor ,  
Graham Firth Steel Compound, Off Western  
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon  
(East) Mumbai - 400063  
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

**Kolkata Office:**

18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,  
5th Floor, Kolkata-700001  
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000  
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

एसएमसी ग्लोबल सिन्डिकेटिज लिमिटेड ( जिसे एसएमसी कहा जाता है ) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवायें और संबंधित सेवायें करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिन्डिकेटिज लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉमिटेड नेशनल कर्मोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कर्मोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कर्मोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एमसीएस स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की सदस्य हैं। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मर्चेन्ट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्डिकेटिज लिमिटेड सेबी ( रिसर्च एनालिस्ट ) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसर्च एनालिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिन्डिकेटिज लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एथॉरिटी द्वारा सिन्डिकेटिज मार्केट/कर्मोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निलंबित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसर्च एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री को शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार की परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसर्च एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कर्मोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय है।

**दिसक्लेमर:** यह रिसर्च रिपोर्ट अधिकृत प्रादाकर्ता की व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक के किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सन्तुलन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विस्तृत सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाये गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता की जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसको (अ) समय-समय पर किसी भी कर्मोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में चिह्न किया गया है, खरीद या विक्री, कोई भी पोषण हो सकती है और वह इस कर्मोडिटीज को खरीद या विक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कर्मोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौदों में और ब्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।

